

Num

Chapter 19

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה וְאֶל-אַהֲרֹן לֵאמֹר: 1
और-से-मूसा से-यहोवा-ने और-कहा
H03529 H0175 H0413 H4872 H0413 H3068 H1696

यहोवा ने मूसा और हारून से बात की। उसने कहा,

וְאֵת חֻקֹּת וְתוֹרֹת אֲשֶׁר-צִוִּיתִי אֶת-יְהוָה לֵאמֹר בֹּל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל 2
इसाएल-के पुत्रों से-बोल कहते-हुए यहोवा-ने आज्ञा-दी जो-व्यवस्था-की विधि यह
H33478 H0413 H1696 H0559 H3068 H6680 H8451 H2708 H2063

וַיְקַח וְיָקָח אֵלָיו פָּרֶה גַּיְמִימָה אֲדָמָה לָלַל 3
चढ़ा नहीं-जिस-पर दोष उसमें नहीं-है-जिसमें निर्दोष लाल गाय तेरे-पास और-वे-लाएं
H5927 H3808 H0369 H8549 H6510 H0413 H3947

וְעָלָה עָלָיו 4
जुआ उस-पर
H5923

“ये नियम और उपदेश हैं जिन्हें यहोवा इस्राएल के लोगों को देता है। उन्हें दोष से रहित एक लाल गाय लेनी चाहिए और उसे तुम्हारे पास लाना चाहिए। उस गाय को कोई खरोंच भी न लगी हो और उस गाय के कंधे पर कभी जुआ अपनी उंगलियों पर लागाना चाहिए और उसे कुछ खून नहीं रखा गया हो।

וַיִּנְתְּנוּ אֵת-אֶלְעָזָר אֶת-אֶתְנָח וְהוֹצִיא וְיָצֵא אֶת-יָאֵקֹב 5
छावनी-के बाहर के-उसे और-वह-निकाले याजक एलीआजार को-उसे और-तुम-देना
H4264 H2351 H0413 H0853 H3318 H3548 H0499 H0413 H0853 H5414

וְשָׂחַט וְשָׂחַט אֶת-אֶתְנָח 6
उसके-सामने उसे और-वह-वध-करे
H6440 H0853

इस गाय को याजक एलीआजार को दो। एलीआजार गाय को डेरे से बाहर ले जाएगा और वह वहाँ गाय को मारेगा।

וְלָקַח וְלָקַח אֶת-אֶתְנָח אֶת-אֶתְנָח 7
तम्बू-मुख सामने के-और-वह-छिड़के अपनी-उंगली-से उसके-लहू-से याजक एलीआजार और-ले
H0168 H6440 H5227 H0413 H0676 H1818 H3548 H0499 H3947

וְשָׂחַט וְשָׂחַט אֶת-אֶתְנָח 8
बार सात उसके-लहू-से मिलापवाले-के
H6471 H7651 H1818 H4150

तब याजक एलीआजार को इसका कुछ खून अपनी उंगलियों पर लागाना चाहिए और उसे कुछ खून पवित्र तम्बू की दिशा में छिड़कना चाहिए। उसे यह सात बार करना चाहिए।

וְשָׂחַט וְשָׂחַט אֶת-אֶתְנָח 9
और-को-उसका-मांस और-को-उसकी-खाल को-उसकी-आंखों-के-सामने गाय को-और-वह-जलाए
H0853 H1320 H0853 H5785 H0853 H6510 H0853 H8313

וְשָׂחַט וְשָׂחַט אֶת-אֶתְנָח 10
वह-जलाए उसकी-गोबर समेत-उसका-लहू
H8313 H6569 H1818

तब पूरी गाय को उसके सामने जलाना चाहिए। चमड़ा, माँस, खून और और आतें सभी जला डालनी चाहिए।

שָׂרַפְתָּ	בֵּינָה	אֶל-	וְהַשְׁלִיךְ	תּוֹלַעַת	וּשְׁנֵי	וְאֶזוּב	אֶרֶז	עֵץ	הַכֹּהֵן	וְלִקַּח	6
जलावट-की	बीच	के-	और-वह-डाले	कीड़ा	और-लाल	और-जूफा	देवदार-की	लकड़ी	याजक	और-ले	
H8316	H8432	H0413	H7993		H8144	H0231	H0730	H6086	H3548	H3947	

הַפָּרָה:
गाय-की
[H6510](#)

तब याजक को एक देवदारु की लकड़ी, एक जूफा की शाखा और लाल रंग का कपड़ा लेना चाहिए। याजक को इन चीजों को उस आग में डालना चाहिए जिसमें गाय जल रही हो।

הַמַּחֲנֶה	אֶל-	יְבוֹא	וְאָחֵר	בְּמַיִם	בְּשָׂרוֹ	וְרָחַץ	הַכֹּהֵן	בְּנֵי יוֹ	וְכִבֵּס	7
छावनी	के-	वह-आए	और-बाद-में	पानी-में	अपना-शरीर	और-वह-नहाए	याजक	अपने-कपड़े	और-धोए	
H4264	H0413	H0935		H4325	H1320	H7364	H3548		H3526	

וְטָמֵא
और-अशुद्ध-होगा
הַכֹּהֵן
याजक
עַד-
तक-
הָעֶרְבַּ:
सांझ
[H6153](#) [H5704](#) [H3548](#)

तब याजक को, अपने को तथा अपने कपड़ों को पानी से धोना चाहिए। तब उसे डेरे में लौटाना चाहिए। याजक सन्ध्या तक अशुद्ध रहेगा।

וְטָמֵא	בְּמַיִם	בְּשָׂרוֹ	וְרָחַץ	בְּמַיִם	בְּנֵי יוֹ	וְכִבֵּס	אֹתָהּ	וְהַשְׁרִיף	8
और-अशुद्ध-होगा	पानी-में	अपना-शरीर	और-वह-नहाए	पानी-में	अपने-कपड़े	वह-धोए	उसे	और-जो-जलाता-है	
	H4325	H1320	H7364	H4325		H3526	H0853	H8313	

הָעֶרְבַּ:
सांझ
עַד-
तक-
[H6153](#) [H5704](#)

जो व्यक्ति गाय को जलाए उसे अपने को तथा अपने वस्त्रों को पानी से धोना चाहिए। वह सन्ध्या तक अशुद्ध रहेगा।

טְהוֹר	בְּמַקוֹם	לְמַחֲנֶה	מִחוּץ	וְהִנִּיחַ	הַפָּרָה	אֶפְרַח	אֵת	טְהוֹר	אִישׁ	וְאִסַּף	9
शुद्ध	में-जगह	छावनी-के	बाहर	और-वह-रखे	गाय-की	राख	को	शुद्ध	आदमी	और-इकट्ठा-करे	
H2889	H4725	H4264	H2351	H3240	H6510	H0665	H0853	H2889	H0376	H0622	

הוּא:	חַטָּאת	נָדָה	לְמִי	לְמִשְׁמַרְתָּ	יִשְׂרָאֵל	בְּנֵי-	לְעֵרֹת	וְהִוָּתַח	
वह-है	पापबलि	अशुद्धता-दूर-करने-के	पानी-के-लिए	सुरक्षा-के-लिए	इस्राएल-के	पुत्रों-	के-लिए-मण्डली	और-वह-होगी	
H1931		H5079	H4325	H4931	H3478		H5712	H1961	

“तब एक पुरुष जो शुद्ध होगा, गाय की राख को इकट्ठा करेगा। वह इस राख को डेरे के बाहर एक शुद्ध स्थान पर रखेगा। यह राख उस समय उपयोग में आएगी जब लोग शुद्ध होने के लिए विशेष संस्कार करेंगे। यह राख व्यक्ति के पाप को दूर करने के लिए उपयोग में आएगी।

הָעֶרְבַּ	עַד-	וְטָמֵא	בְּנֵי יוֹ	אֶת-	הַפָּרָה	אֶפְרַח	אֶת-	הָאִסָּף	וְכִבֵּס	10
सांझ	तक-	और-अशुद्ध-होगा	अपने-कपड़े	को-	गाय-की	राख	को-	जो-इकट्ठा-करता-है	और-धोए	
H6153	H5704				H0853	H6510	H0665	H0853	H0622	H3526

עוֹלָם:	לְחֻקָּת	בְּתוֹכָם	הָאָרֶץ	וְלִגְרֵ	יִשְׂרָאֵל	לְבָנָי	וְהִוָּתַח	
सदा-की	विधि-के-रूप-में-	उनके-बीच-में	परदेशी	और-परदेशी-के-लिए	इस्राएल-के	के-लिए-पुत्रों	और-वह-होगी	
H5769	H2708	H8432		H1616	H3478		H1961	

“वह व्यक्ति, जिसने गाय की राख को इकट्ठा किया, अपने कपड़े धोएगा। वह सन्ध्या तक अशुद्ध रहेगा। “यह नियम सदा चलता रहेगा। यह नियम इस्राएल के नागरिकों के लिए है और यह उन विदेशियों के लिए भी है जो तुम्हारे बीच रहते हैं।

יָמִים:	שְׁבַעַת	וְטָמֵא	אָדָם	נַפְשׁ	לְכָל-	בְּמַת	הַנֹּגֵעַ	11
दिन	सात	और-अशुद्ध-होगा	आदमी-के	प्राण	किसी-भी-	में-लाश	जो-छूता-है	
H3117	H7651		H0120	H5315	H3605	H4191	H5060	

यदि कोई व्यक्ति एक मरे व्यक्ति को छूता है, तो वह सात दिन के लिए अशुद्ध हो जाएगा।

וְאִם- और-यदि-	יִטְהַר वह-शुद्ध-होगा	הַשְּׂבִיעִי सातवें	וּבְיָמָיו और-में-दिन	הַשְּׁלִישִׁי तीसरे	בְּיוֹם में-दिन	כּוּ उससे	יִתְחַטֵּא- अपने-आपको-शुद्ध-करे-	הוּא वह	12
	H2891	H7637	H3117	H7992	H3117		H2398	H1931	

יִטְהַר: वह-शुद्ध-होगा	לֹא नहीं	הַשְּׂבִיעִי सातवें	וּבְיָמָיו और-में-दिन	הַשְּׁלִישִׁי तीसरे	בְּיוֹם में-दिन	יִתְחַטֵּא वह-अपने-आपको-शुद्ध-करे	לֹא नहीं
H2891	H3808	H7637	H3117	H7992	H3117	H2398	H3808

उसे अपने को तीसरे दिन तथा फिर सातवें दिन विशेष पानी से धोना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करता, तो वह अशुद्ध रह जाएगा।

יִתְחַטֵּא वह-अपने-आपको-शुद्ध-करता-है	וְלֹא और-नहीं	יָמוּת वह-मरता-है	אֲשֶׁר- जो-	הָאָדָם आदमी-के	בְּנֶפֶשׁ में-प्राण	בְּמַת में-लाश	הַנֶּזֶע जो-छूता-है	כָּל- सब-	13
H2398	H3808	H4191		H0120	H5315	H4191	H5060	H3605	

מִי पानी	כִּי क्योंकि	מִיִּשְׂרָאֵל इस्राएल-से	הָהוּא वह	הַנֶּפֶשׁ प्राण	וְנִכְרְתָהּ और-काटा-जाएगा	טָמֵא वह-अशुद्ध-करता-है	יְהוּה यहोवा-का	מִשְׁכָּן निवास	אֶת- को-
H4325		H3478	H1931	H5315	H3772		H3068	H4908	H0853

בּוֹ: उसमें	טָמְאָתוֹ उसकी-अशुद्धता	עוֹד अभी-भी	יְהוּה वह-होगा	טָמֵא अशुद्ध	עָלָיו उस-पर	זָרַק छिड़का-गया	לֹא- नहीं-	נָדָה अशुद्धता-दूर-करने-का
	H2932	H5750	H1961	H2931		H2236	H3808	H5079

यदि कोई व्यक्ति किसी शव को छूता है, तो वह व्यक्ति अशुद्ध है। यदि वह व्यक्ति अशुद्ध रहता है और तब पवित्र तम्बू में जाता है तो पवित्र तम्बू अशुद्ध हो जाती है। इसलिए उस व्यक्ति को इस्राएल के लोगों से अलग कर दिया जाना चाहिए। यदि अशुद्ध व्यक्ति पर विशेष जल नहीं डाला जाता तो वह व्यक्ति अशुद्ध रहेगा।

וְכָל- और-सब-	הָאֶהָל तम्बू	אֶל- के-	הָבָא जो-आता-है	כָּל- सब-	בְּאֶהָל में-तम्बू	יָמוּת वह-मरता-है	כִּי- जब-	אָדָם आदमी	הַתּוֹרָה व्यवस्था	זָאת यह	14
H3605	H0168	H0413	H0935	H3605	H0168	H4191		H0120	H8451	H2063	

אֲשֶׁר जो	בְּאֶהָל तम्बू-में-है	יִטְמָא अशुद्ध-होगा	שִׁבְעַת सात	יָמִים: दिन
	H0168		H7651	H3117

“यह नियम उन लोगों से सम्बन्धित है जो अपने खेमों में मरते हैं। यदि कोई व्यक्ति खेमों में मरता है तो उस खेमे का हर एक व्यक्ति अशुद्ध हो जाएगा। वे सात दिन तक अशुद्ध रहेंगे।

וְכָל- और-सब	כָּלִי पात्र	פְּתוּחַ खुला-हुआ	אֲשֶׁר जिस-पर	אֵין- नहीं-है-	צְמִיד बंधन	פְּתִיל डोरी-का	עָלָיו उस-पर	טָמֵא अशुद्ध	הוּא: वह-है	15
	H3627			H0369		H6616		H2931	H1931	

और हर एक ढक्कन रहित बर्तन और घड़ा अशुद्ध हो जाता है।

אוּ- या-	בְּמַת में-लाश	אוּ या	חֹרֵב तलवार	בְּחִלְלֵ- में-मारे-गए-	הַשָּׂדֶה खेत-के	פִּנּוּ मुख	עַל- पर-	יָנַע वह-छूता-है	אֲשֶׁר- जो-	וְכָל और-सब	16
	H4191		H2719			H6440		H5060		H3605	

בְּעֵצִים में-हड्डी	אָדָם आदमी-की	אוּ या	בְּקִבְרָה में-कब्र	יִטְמָא अशुद्ध-होगा	שִׁבְעַת सात	יָמִים: दिन
H6106	H0120		H6913		H7651	H3117

यदि कोई शव को छूता है, तो वह व्यक्ति सात दिन तक अशुद्ध रहेगा। यह तब भी सत्य होगा जब व्यक्ति बाहर देश में मरा हो या युद्ध में मारा गया हो। यदि कोई व्यक्ति मरे व्यक्ति की हड्डी या किसी कब्र को छूता है तो वह व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है।

אוּ- के-	חַיִּים जीवित	מֵי पानी	עָלָיו उस-पर	וְנָתַן और-वह-डाले	הַחֲטָאִת पापबलि-की	שְׂרָפָת जलावट-की	מֵעֶפֶר से-धूल	לְטָמֵא के-लिए-अशुद्ध	וְלִקְחוּ और-वे-लें	17
H0413		H4325		H5414		H8316	H6083	H2931	H3947	

כָּלִי:
पात्र
[H3627](#)

“इसलिए तुम्हें दुग्ध गाय की राख का उपयोग उस व्यक्ति को पुनः शुद्ध करने के लिए करना चाहिए। स्वच्छ पानी घड़े में रखी हुई राख पर डालो।

וְלֶקַח	אָזוֹב	וְטָבַל	בְּמַיִם	אִישׁ	טָהוֹר	וְהָיָה	עַל-	הָאֶהָל	וְעַל-	כָּל-	18
और-ले	जूफ़ा	और-डुबोए	पानी-में	आदमी	शुद्ध	और-वह-छिड़के	पर-	तम्बू	और-पर-	सब-	
H3947	H0231	H2881	H4325	H0376	H2889			H0168		H3605	
הַכַּיִים	וְעַל-	הַנְּפֹשׁוֹת	אֲשֶׁר	הָיוּ	שָׁם	וְעַל-	הַנְּזֹעַ	בְּעֵצִים	אוּ	בְּחִלָּל	
पात्रों	और-पर-	प्राणियों	जो	थे-	वहाँ	और-पर-	जो-छूता-है	में-हड्डी	या	में-मारे-गए	
H3627		H5315		H1961	H8033		H5060	H6106			
אוּ	בְּמַת	אוּ	בְּקִבְרֵי:								
या	में-लाश	या	में-कब्र								
	H4191		H6913								

शुद्ध व्यक्ति को एक जूफ़ा की शाखा लेनी चाहिए और इसे पानी में डुबाना चाहिए। तब उसे तम्बू, बर्तनों तथा ढेरों में जो व्यक्ति हैं उन पर यह जल छिड़कना चाहिए। तुम्हें यह उन सभी व्यक्तियों के साथ करना चाहिए जो शव को छुएंगे। तुम्हें यह उस के साथ भी करना चाहिए जो युद्ध में मरे व्यक्ति के शव को छूता है या उस किसी के साथ भी जो किसी मरे व्यक्ति की हड्डियों या क़ब्र को छूता है।

וְהָיָה	הַטָּהוֹר	עַל-	הַטָּהוֹר	בְּיָוִם	הַשְּׁלִישִׁי	וּבְיָוִם	הַשְּׁבִיעִי	וַחֲטָאוּ	19
और-छिड़के	जो-शुद्ध-है	पर-	अशुद्ध	में-दिन	तीसरे	और-में-दिन	सातवें	और-वह-उसे-पवित्र-करे	
H2889			H2931	H3117	H7992	H3117	H7637	H2398	
בְּיָוִם	הַשְּׁבִיעִי	וְכִבֵּס	בְּגָדָיו	וְרַחֵץ	בְּמַיִם	וְטָהַר	בְּעָרָב:		
में-दिन	सातवें	और-वह-धोए	अपने-कपड़े	और-वह-नहाए	पानी-में	और-शुद्ध-होगा	सांझ-को		
H3117	H7637	H3526		H7364	H4325	H2891	H6153		

“तब कोई शुद्ध व्यक्ति इस जल को अशुद्ध व्यक्ति पर तीसरे दिन और फिर सातवें दिन छिड़के। सातवें दिन वह व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। उसे अपने कपड़ों को पानी में धोना चाहिए। वह संध्या के समय पवित्र हो जाता है।

וְאִישׁ	אֲשֶׁר-	יִטְמָא	וְלֹא	יִטְמָא	וְהָיָה	וְנִכְרַתָּהּ	הַנְּפֹשׁ	הַהוּא	20
और-आदमी	जो-	अशुद्ध-होता-है	और-नहीं	अशुद्ध-होता-है	वह-अपने-आपको-शुद्ध-करता-है	और-काटा-जाएगा	प्राण	वह	
H0376			H3808		H2398	H3772	H5315	H1931	
מִתּוֹךְ	הַקְּהָל	כִּי	אֶת-	מִקְדָּשׁ	יְהוָה	מֵי	נָדָה	לֹא-	
से-बीच	सभा	क्योंकि	को-	पवित्रस्थान	यहोवा-का	पानी	अशुद्धता-दूर-करने-का	नहीं-	
H8432	H6951		H0853	H4720	H3068	H4325	H5079	H3808	
זָרַק	עָלָיו	טָמֵא	הוּא:						
छिड़का-गया	उस-पर	अशुद्ध	वह-है						
H2236	H2931	H1931							

“यदि कोई व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है और शुद्ध नहीं होता तो उसे इसाएल के लोगों से अलग कर देना चाहिए। उस व्यक्ति पर विशेष पानी नहीं छिड़का गया। वह शुद्ध नहीं हुआ। तो वह पवित्र तम्बू को अशुद्ध कर सकता है।

וְהָיָה	לְהֵם	לְחֻקַּת	עוֹלָם	וּמִזָּה	מֵי-	הַנְּדָה	יִכָּבֵס	21
और-वह-होगी	उनके-लिए	विधि-के-रूप-में-	सदा-की	और-जो-छिड़कता-है	पानी-	अशुद्धता-दूर-करने-का	वह-धोए	
H1961		H2708	H5769		H4325	H5079	H3526	
בְּגָדָיו	וְהַנְּזֹעַ	בְּמַיִם	הַנְּדָה	יִטְמָא	עַד-	הָעָרָב:		
अपने-कपड़े	और-जो-छूता-है	पानी-में-	अशुद्धता-दूर-करने-के	अशुद्ध-होगा	तक-	सांझ		
	H5060	H4325	H5079		H5704	H6153		

यह नियम तुम्हारे लिए सदा के लिए होगा। जो व्यक्ति इस विशेष जल को छिड़कता है, उसे भी अपने कपड़े अवश्य धो लेने चाहिए। कोई व्यक्ति जो इस विशेष जल को छुएगा, वह संध्या तक अशुद्ध रहेगा।

וְכָל	אֲשֶׁר-	יָנַע-	בּוֹ	הַטָּהוֹר	יִטְמָא	וְהַנְּפֹשׁ	הַנְּזֹעַת	עַד-	הָעָרָב:	22
और-सब	जिसे-	वह-छूता-है-	उसे	अशुद्ध	अशुद्ध-होगा	और-प्राण	जो-छूता-है	तक-	सांझ	
H3605		H5060		H2931		H5315	H5060	H5704	H6153	

| यदि कोई अशुद्ध व्यक्ति किसी अन्य को छूए, तो वह व्यक्ति भी अशुद्ध हो जाएगा। वह व्यक्ति संध्या तक अशुद्ध रहेगा।”